

HB LEASING AND FINANCE CO. LTD.

Regd. Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana) Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbleasing.com Website: www.hbleasing.com, CIN:L65910HR1982PLC034071

23rd August, 2023

LISTING CENTRE

The Listing Department BSE Limited, Pheroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001

Company Code: 508956

Sub: - Copies of Newspaper Advertisement - Notice of 40th Annual General Meeting (AGM), e-voting and Book Closure Information

Dear Sir / Madam.

In continuation to our letter dated 17th August, 2023, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard (English & Hindi) dated 23rd August, 2023 regarding Notice of 40th Annual General Meeting (AGM), e-voting and Book Closure Information.

The above may please be treated as compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Part A of Schedule III of said Regulations.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbleasing.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HB Leasing and Finance Company Limited

SONALI SHARMA

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As above

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65910HR1982PLC034071

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbleasing.com, Website: www.hbleasing.com

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Dear Members.

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Leasing and Finance Company Limited ("the Company") will be held on Friday. 22nd September, 2023 at 03:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars")

Since the meeting will be held through VC/OAVM, facility for appointment of proxy will

The Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been sent electronically to all the members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on Tuesday, 22nd August, 2023.

As per Section 108 of Companies Act, 2013 Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the ("SEBI Listing Regulations") and aforesaid various Circulars issued by the MCA and SEBI as mentioned above, the Members are provided with the facility to attend AGM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to cast their vote electronically through the Remote e-voting before the AGM and through e-voting during the AGM, through the Authorised Agency, National Securities Depository Limited (NSDL)

Detailed process and manner of Remote e-voting / e-voting during the AGM and instructions for participation at the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

All the Members are hereby informed that:

- the Ordinary Business as set out in the Notice of 40th AGM will be transacted through voting by electronic means:
- the Remote e-voting shall commence on Tuesday, 19th September, 2023 at
- the Remote e-voting shall end on Thursday, 21st September, 2023 at 05.00 P.M. Thereafter, the facility of Remote e-voting shall be disabled by NSDL
- the e-voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their Shares in the Equity Share Capital of the Company. Members of the Company holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 15th September, 2023 may cast their vote by Remote e-voting before AGM / e-voting at AGM
- Any person who acquires Shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice and holding Shares as on the cut-off date i.e. Friday, 15th September, 2023 may follow the login process mentioned in the
- Members may further note that:

Date: 22nd August, 2023

Place : Gurugram

- i. Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- II. Members who have casted their vote through Remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.
- iii. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be called to small the facility of Paracha a uniting marticipating in the ACM through entitled to avail the facility of Remote e-voting, participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting at the AGM.
- Iv. The Notice of AGM and Annual Report are available on the website of the Company at www.hbleasing.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- v. In case of any grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members can directly contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager -NSDL, e-mail ID: evoting@nsdl.co.in or call on Toll Free No.: 022-4886-7000 and 022-2499-7000 Members may also write to the Company Secretary at the e-mail ID: corporate@hbleasing.com.

Book Closure: Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 16th September, 2023 to Friday, 22nd September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 40th AGM.

For HB Leasing and Finance Company Limited

SONALI SHARMA

(Company Secretary) M. No.: ACS-59728

Questions (FAQs) and e-voting user manual available downloads section of KFintech's website https://evoting.k fintech.com or contact Ms. Swati Reddy (Unit: POWER FINANCE CORPORATION LIMITED), KFin Technologies Private Limited Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana, India or at einward.ris@kfintech.com and evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

For and on behalf of Power Finance Corporation Limited Sd/-

Place : New Delhi Date: August 21, 2023 (Manish Kumar Agarwal) **Company Secretary**

infoedge INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New D Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

This Notice is hereby given pursuant to provisions of Section 124(6) and other applicable proif any, of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Au (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Al amended from time to time ("the Rules"). The Rules, inter-alia contains provisions for transunpaid or unclaimed dividend to IEPF authority and transfer of shares in respect of which di remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already commun individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF au under the said Rules for taking appropriate action(s). The details of such shareholders a uploaded on the website of the Company i.e. www.infoedge.in. The concerned shareholders a requested to claim the unclaimed dividend on or before the due date, otherwise the shares s transferred to the IEPF authority after the due date.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable transferred to IEPF authority, may also take note that the Company would be issuing duplicate certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of tran shares to IEPF authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate which registered in their name will stand automatically cancelled and will have no effect whatsoever case shares are held in Demat form, the Company would give appropriate instructions in the f Corporate Action to the Depositories such that the Depositories are able to transfer the said sh the demat account of the IEPF authority.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates. by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF authority pursuant to the Rules. note that upon transfer to IEPF, no claim shall lie upon the Company in respect of the unc dividend amount and equity shares so transferred.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been transferred shares which are being transferred by the Company to IEPF authority including all benefits ac on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPF authority by following procedure given on its website i.e. http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html. Further in order to cla unclaimed dividend lying with the Company or in case you need any information /clarifi please write to or contact our RTA: M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, P 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel: 011-41410592, iepf.shares@linkintime.co.in.

Please provide following details in all your communications: 1. Name of the Company, 2. Folio DP and Client ID, 3. Name of Shareholder, 4. Contact No., 5. Email ID. Also provide self-attested documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as a proof.

> By Order of the Board of Dir For Info Edge (Indi

Date: August 22, 2023 Place: Noida

Chintan Th Whole-time Director

💶 एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910HR1982PLC034071

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

फोन: + 91-124-4675500, फैक्स नं. : + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

40वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना ई-वोटिंग तथा बही बंदी की जानकारी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एचबी लीजिंग ऐंड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") क्षे एतद्वारा (सूचना दा जाता है कि एचबी लाजिय एक कोइन से कम्पना ालामटक (केंग्यना) के सदस्यों की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), शुक्रवार, 22 सितन्बर, 2023 को दोपहर 03.00 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीवद्ध व्यवसाय के निम्मादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 ('सेबी सूचीयन विनियमावली) के लागू प्रावधानों एवं तबधीन विरियत नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिचन्न संख्या 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपन्न संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न संख्या 20 / 2020 दिनांकित 05 मई, 2020, परिपन्न संख्या 2 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपन्न संख्या 02 / 2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और परिपन्न संख्या 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपन्न संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 19 दिनांकित 12 मई. 2020. परिएत्र संख्या संबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी. 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 तथा परिपत्र संख्या संबी / एसओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 (एतद्घरवात सामृहिक रूप से 'परिपन्न' संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की पौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्स ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी

वृक्ति बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः एजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को मेजी जा चुकी है, जिनका ई-मैल पता मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध / उपलब्ध है।

अधिनियम की धारां 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के विनियम 44 और उपरिवर्णित अनुसार एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी उपरोक्त विभिन्न परिपन्नों के अनुपालन में सदस्यों को वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग तथा सेवा द्वारा जारा उपरावता ावामना भारमता क अनुभावन म संवर्ध्या का वााव्या कांग्राम्तार (वीसी) अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएबीएम) के माध्यम से एजीएम में माग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वॉटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और एजीएम के वीरान ई-वॉटिंग के माध्यम से बोट बालने हेतु सुविधा, अधिकृत एजेन्सी, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी तिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिभोट ई-बोटिंग / एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी / ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

सभी सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- 40वीं एजीएन की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा ,
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुक्त होगा ;
- रिमोट ई-बोटिंग द्वारा मतदान बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को शाम 05.00 बजे मो समाप्त होगा। इसके बाद रिमोर्ट ई-वीटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निषेध कर दी जाएगी ;
- सदस्यों के ई-वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शैयरों के प्रदत्त मृत्य कें अनुपात में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं
- यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

च. सदस्य आगे नोट करें कि :

तिथि : 22 अगस्त, 2023

- i. किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर युके हैं, वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- III. यह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामधी स्वानियों के रजिस्टर में अभिलिखित क्षेगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा।
- iv. एजीएम की सूचना तथा वार्षिक स्पिट कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की देवसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में सदस्यगण सीघे सुश्री पल्लवी म्हाजे, वरिष्ठ प्रबंधक — एनएसडीएल, ई—मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री गंबर 022—4886—7000 और 022—2499—7000 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई-मेल आईडी : corporate@hbleasing.com पर लिख सकते हैं।

बही बंदी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 42 के अनुसार सदस्यों के रिजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें आगामी एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 16 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

सोनाली शर्मा (कम्पनी सचिव)

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | बुधवार, 23 अगस्त 2023

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्या सुवना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स रूरल फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U74140MH1993PTC074596) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार गजेंद्र सिंह प्रॉपराइटर शिशोदिया डाइंग एंड प्रिटिंग वर्क्स, संतोष और राहुल शिशोदिया को 10.09.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं HRSMNOI00484500 की राशि रू.31,68,592.02 /- (रुपए इकतीस लाख अडसठ हजार पाँच सौ बानवे और दो पैसे मात्र) और 19.08.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.08.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

निशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततुद्वारा संस्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.31,68,592.02 /- (रुपए इकतीस लाख अडसठ हजार पाँच सौ बानवे और दो पैसे मात्र) 19.08.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स करल फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की भारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट नं. 858 के सभी भाग और खंड, साथ ही में वहाँ संरचना, खसरा नं.1944 मिन में शामिल, रामपुरा रोड, गुरुद्वारा के पास, पिलखुवा, परगना दसना, तहसील हापुर, जिला गाज़ियाबाद-245304, उत्तरप्रदेश।

प्लॉट 147.28 स्के.मी का एरिया

सीमाएं

पूर्व: रोड 18 फीट

उत्तर: राकेश का खाली प्लॉट

पश्चिम: खाली प्लॉट दक्षिण: संतोष

दिनांक :18.08.2023

स्थान :गाजियाबाद

पाधिकत अधिकारी

इंडियाबुल्स रूरल फाबनान्स प्राइवेट लिमिटेड

PAISALO DIGITAL LIMI REGD. OFF: CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110015

EASY LOAN आसान लोन TEL: +91 11 43518888 WEB: www.paisalo.in CIN: L65921DL1992PLC120483

अवीं वार्षिक सामान्य समा हेतु सूचना

न्यनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमों तथा कॉपॉरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपन्नी

कार्य का बार्य कार्य हाया है। कार्यों कम्पनी के या पिलद्रार और दूरिकार एजेंन्ट को cs@paisalo,in या ramap@alankit.com पर मेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकरे हैं। जिन सदस्यों के शेयर द्वीमेट फामेंट में हैं वे अपने डियॉजिटरी

भेजकर रिजिस्ट्रियन करवा सकते हैं। जिन सदस्यों के शेंग्रर डीमेट फामेंट में हैं वे अपने डिग्रॉजटरी गार्टिसियेट के पास अपना ईनेल आईडी प्रता प्रजीकृत करा सकते हैं। समी प्रता अपना इनेल आईडी प्रता प्रजीकृत करा सकते हैं। समी अपर है उन्हें ई-बोटिंग के माध्यम से 31वीं वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत प्रस्तावों पर अपना मत (बोट) देने का अवसर प्राप्ता होगा। जिन सदस्यों के ईनेल आईडी पता कम्मानी में साथ उपिस्टर्ड नहीं हैं वे सभा में उपिखत व ई-मततान का करिशा कम्मानी की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा की सुना में से पता कर सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड एवं ई-मतदान प्रक्रिया की आवा वार्षिक सामान्य सभा की सुना में से पता कर सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड एवं ई-मतदान प्रक्रिया की कारणवर्ग प्राप्त नहीं होता है या जिन सदस्यों के ईनेल आईडी का पता कम्पनी के साथ उपिस्टर्ज नहीं है वे 31वीं वार्षिक सामान्य सभा की सुना में उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए अपना लॉगिन आईडी पायवर्ड स्वयं बना सकते हैं और समा में उपस्थित व ई-मतदान में भाग ले सकते हैं।

इ नारामा न नान के सकत है। अप अर्थ ति स्वाप्त के अर्थ वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अर्थमा लामांश केवल उन्हों शेवरधारकों को इतेक्ट्रोनिक मुक्त प्रवेशका सकता को प्रवेशका अपने बैंक खाते का विवरण कम्मनी के साथ प्रवेशकर करा चुके होंगे। यदि तम विनाक तक बैंक खाते का विवरण कम्मनी के साथ प्रवेशकर करा चुके होंगे। यदि तम विनाक तक बैंक खाते का विवरण कम्मनी के साथ प्रवेशकर करा चुके होंगे। यदि तम विनाक तक बैंक खाते का विवरण अर्थाकर का साथ का विवरण कम्मन के साथ करा करा कि साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के सा इंतर के मीध्यम से किया वाया। संदर्धण अस घारण साथ इस्तरद्वानक माध्यम से हानाज अपन कव कार में मेजने का अनुराध 1. मान फॉलियों नाम्बर बैंक खाते का विस्तरण सहित एक स्वयं इस्ताझरित पश्र इता 2. स्वयं इस्ताझरित पैन कार की स्केंन प्रति 3. कीन्सरल चेंक की स्केंन कीपी, cs@paisalo.in या आरटीए ramap@alankit.com पर मेजकर कर सकते हैं। जिन सदस्य/अंश धारकों के शेयर डीमेंटलाईज्ज फॉनिट में है वे भी अपने बेंक खाते का विवयण अपने किपीजरी पार्टिसियेंट जिनके साथ उनके डीमेंटलाई के साथ पंजीकृत करके लागांश सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। जागांश का मुश्तान जान टीजीएस (भीत पर कर) काटने के बाद ही किया जारेगा। अन्य किपी में प्राप्तकार के स्वरं मुख्यान

ओसव

पंजीकृत कार्यालयः 98ए, दूसर्र दूरभाष सं.

ई-मेल आईडी: cs@oswalov 39वीं वार्षित

रतद्द्वारा सूचित किया जाता है वि व्यवसायिक पहलुओं पर विचार वि उसके अधीन गठित नियमों के सा 2021, 02/2022, 10/2022, 2021 5 मई 2022 तथा 28 विनिमय बोर्ड (सेवी) द्वारा जारी स तथा 5 जनवरी, 2023 (सामृहिक "वीसी")/अन्य ऑडियो-विज्अल (एजीएम) सोमवार, 18 सितम्बर ऊपर उल्लेखित सर्कुलरों के अनु प्रतिवेदन कंपनी द्वारा उन सभी स मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम "डिपॉजिटरी") के पास पंजीकत वार्षिक प्रतिवेदन की कोई भी भी प्रतिवेदन 2022-23 की भौतिक सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंप तिमिटेड की वेबसाइट www.bs एजीएम में शामिल होने तथा रिमो निर्देशावलियां 39वीं एजीएम की इसके अलावा, कंपनी के सदस्य । की सूचना में उल्लेखित प्रक्रियाओं

कंपनी के जिन सदस्यों ने अपना

- का पालन कर उसका पंजीयन क भौतिक प्रारूप में शेयर धारण (अगर पहले से जमा नहीं कि हुए एवं हस्ताक्षरित प्रपन्न-अ बीटल फाइनैशियल एंड व 99, मदनगिर, लोकल शॉर्ड 110062 के पास जमा अप आरटीए ईमेल आईडी: bee
- डिमेट प्रारूप में शेयर धारण आरटीए के पास beetalrt (सीडीएसएल-16 अंकों व डीपीआईडी+सीएलआईडी) कार्ड (स्वयं सत्यापित प्रतिनि ईमेल आईडी का अस्थाई रूप का स्थाई पंजीकरण के लिए कराने का अनुरोध किया जा सदस्यों से अपने पैन डिपॉजिटरी भौतिक प्रारूप में है) के पास अध यह सूचना एमसीए तथा सेबी के लाभार्थ जारी किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली विनांक : 22.08.2023

सार्वजनिक सूच

इसके द्वारा आम जनता को सुचित किय मुवक्किता श्रीमती दर्जन बाला पत्नी श्री म निष्पति अंगलित द्वान वाती पत्ना आर्थे संपत्ति की मालिक जिसका नंबर WZ-105.6 वर्ष गुन्न है, नारायका गांव दिल्ली संपत्ति के संबंध में श्री बाबू राम गुन्न स्क हारा निष्पादित पंजीकृत उपहार 22/03/2021 के माध्यम से, (दस्तावेज सं संख्या-1, खंड संख्या-14898, पृष्ठ संख् एसआर VII-ए सरोजिनी नगर के मार प्रताश शान्य सराजना नगर के माह मुवक्किता इसे फेडबैंक फाइनीश्रेयत स पास गिरवी रखना चाहती है। किसी के आपति है बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवर विचिष्ट तिस्तित आपतियों के साथ अधी कर सकता है अन्यस्थ यह माना जाएगा

> वरुण को 72/03, गली सफदरजंग एन्स्टेव, मध् (07982557892) (varunphoge

स्थान : गुरुप्राम

M. No.: ACS-59728